

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 5, 2003 (चैत्र 15, 1925)

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 5, 2003 (CHAITRA 15, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई, दिनांक 29 मार्च 2003

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ(8) 70/बी 5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत तथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण दिसम्बर 2002 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग ख में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

| प्रतिभूतियों की सं. | मूल्य | जिस व्यक्ति के नाम जारी किया | बकाया ब्याज की तिथि | प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम | प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या |
|---------------------|-------|------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

मुंबई (फोर्ट सर्कल)
भारत सरकार स्वर्ण बांड 1998

| | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|--|
| बीवाई/एस.जे.जी./ 000282 से बीवाई/एस.जे.जी./ 000289 तक (आठ बांड) | 500 ग्राम स्वर्ण हर एक | राधेश्याम मिश्रीलाल सरफ | 08/06/1993 | गोविन्द राधेश्याम अग्रवाल | मामला सं. 20.04.2105 महा प्रबंधक के दिनांक 17.12.2002 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं. 406 दिनांक 17 दिसम्बर 2002 |
|---|---------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|--|

सूची "क"

| प्रतिभूतियों की सं. | मूल्य | जिस व्यक्ति के नाम जारी किया | बकाया ब्याज की तिथि | प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम | प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या |
|---------------------|-------|---------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

भायखला, मुंबई (सर्कल)
9% राहत पत्र 1987

| | | | | | |
|------------------|--------------|--|----------|--|-----------------------|
| बीपीए-बीसी-10861 | रु. 10,000/- | शांताबाई देसाई (अब मृत) और प्रभा राव | 8.1.1991 | शांताबाई देसाई (अब मृत) और प्रभा राव | 06.25:62 21.6.2002 |
|------------------|--------------|--|----------|--|-----------------------|

नागपुर सर्कल
स्वर्ण बांड योजना, 1993

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| बीवाय. एसटीएल. 000189 | 591 ग्राम | राजेन्द्र कुमार ओसवाल | 1998 में परिपक्वता पर देय | राजेन्द्र कुमार ओसवाल | उप महा प्रबंधक के दिनांक 23 नवम्बर 2002 के आदेशानुसार |
|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---|

सूची "ख"

| प्रतिभूतियों की सं. | मूल्य | जिस व्यक्ति के नाम जारी किया | बकाया ब्याज की तिथि | प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम | प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या |
|---------------------|-------|---------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

कोलकाता सर्कल
10% राहत पत्र 1995

| | | | | | |
|----------|--------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|---|
| सीए-4597 | रु. 65,000/- | गीता चटर्जी और शम्भूनाथ चटर्जी | संचयी | गीता चटर्जी और शम्भूनाथ चटर्जी | फाईल सं. आई-2547 महाप्रबंधक का दिनांक 23.10.2002 का आदेश (डायरी सं. एलसीओ- 69/02-03 दिनांक 23.10.2002) |
|----------|--------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|---|

5 ¾% ऋण 2001

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------|--|--|--|
| सीए-001085 | रु. 5,000/- | भारतीय रिजर्व बैंक | जारी किए जाने के बाद कोई ब्याज नहीं दिया गया | जयंत चक्रवर्ती और मलय कुमार चटर्जी (ट्रस्टी कन्टेनर्स एंड क्लोजर्स लि. वर्कर्स प्राविडेंट फंड) | फाईल सं. आई-2432 महाप्रबंधक का आदेश दिनांक 05.11.2002 (डायरी सं. एलसीओ-72/ 02-03 दिनांक 5.11. 2002) |
| सीए-001094 | रु. 25,000/- | -वही- | -वही- | -वही- | -वही- |

सूची "ख"

| प्रतिभूतियों की सं. | मूल्य | जिस व्यक्ति के नाम जारी किया | बकाया ब्याज की तिथि | प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम | प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या |
|-------------------------|----------------|--|---------------------|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| कोलकाता सर्कल | | | | | |
| 9% राहत बांड 1999 | | | | | |
| सीएसी-001121 | रु. 8,00,000/- | समर गुप्ता दिनांक 29.05.2001 को दिवंगत और जली गुप्ता (इ और एस) | संचयी | जली गुप्ता | फाइल सं. आई-2546 महाप्रबंधक का दिनांक 25.11.2002 का आदेश (डायरी सं. एलसीओ-78/02-03 दिनांक 25.11.2002) |
| मुंबई (फोर्ट सर्कल) | | | | | |
| 6.5% भारत सरकार ऋण 2005 | | | | | |
| बी.वाई/006901 | रु. 6,000/- | केनरा बैंक | 01.04.1979 | दि शहाबाद इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडर्स लि. प्राक्विडेंट फंड ट्रस्ट | मामला सं. 20.04.2231 महाप्रबंधक के दिनांक 9.12.2002 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय (डायरी सं. 391 दिनांक 9 दिसम्बर 2002) |

ए.एस. मोहिनाणी
कृते मुख्य महाप्रबंधक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

मुख्य कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2003

सं. पी.एस.बी./डी.ए.सी./2003--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 का 40 (1) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम 1981 (3) में संशोधन करने के लिए एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है नामतः

1 (i) इन विनियमों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम 2003 कहा जा सकेगा।

(ii) ये विनियम राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम 1981 में विनियम 20 के उप विनियम (4) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः--

“(4) कोई भी अधिकारी कर्मचारी यदि अपने स्वयं के नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से 25,000/- रुपए से अधिक मूल्य की चल सम्पत्ति का स्वामित्व लेता है या ऐसी सम्पत्ति रखता है तो वह इससे संबंधित प्रत्येक लेन-देन की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा।”

बशर्ते कि ऐसा लेन-देन

(क) अधिकारी कर्मचारी के साथ सरकारी लेन-देन करने वाले व्यक्ति के साथ, या

(ख) नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी को छोड़ कर अन्य के साथ किया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति ली जाएगी।

सरूप सिंह

उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

**यूको बैंक
कार्मिक विभाग
प्रधान कार्यालय
12, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट
कोलकाता-700001**

कोलकाता, दिनांक 30 दिसंबर, 2002.

पी ई एन सं. 1:2002. - बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970(1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित, धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से, यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 में और संशोधन करके निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात् -

1. (1) ये विनियमन यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियमन, 2002 कहलाएंगे।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. यूको बैंक (कर्मचारी) विनियमन, 1995 में, विनियम 28 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :


28. अधिवर्षिता पेंशन

अधिवर्षिता पेंशन उस कर्मचारी को मंजूर की जाएगी जो सेवा विनियमों या समझौतों में उल्लिखित अधिवर्षिता आयु पर पहुंचने पर सेवानिवृत्त हो गया है।

फिर भी, 1 सितम्बर 2000 से पेंशन ऐसे कर्मचारी को भी मंजूर की जाएगी जो अधिवर्षिता आयु पर पहुंचने के पूर्व सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनता है, लेकिन यह सरकार के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन हेतु बनाई गई किसी योजना के अनुसार न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा करने के पश्चात ही होगा।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय बैंक संघ ने भारत सरकार से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात्, 31.08.2000 को सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को माडल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना(वीआरएस) परिचालित की थी। योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था थी कि जिस कर्मचारी ने 15 वर्ष की सेवा पूरी की है वे योजना के लिए पात्र हैं। पेंशन विनियमन में मौजूद उपबंधों के अनुसार, केवल वे कर्मचारी, जिन्होंने 20 वर्ष की अर्हता सेवा के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है और प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु लिखित रूप में न्यूनतम 3 महीने की नोटिस दी है, पेंशन लाभ के लिए पात्र हैं। पेंशन विनियमन के उपर्युक्त प्रावधानों के पात्रता मानदंड तथा लाभ, 31.08.2000 को परिचालित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन किए गए विचार से भिन्न व अलग हैं। लेकिन, पेंशन विनियमन में उस सदस्य कर्मचारी को पेंशन लाभ प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है जो ऐसी विशिष्ट योजना के अधीन अधिवर्षिता आयु पर पहुंचने के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाता है। अतः, यह निर्णय लिया गया है कि विशिष्ट योजना(ओं) के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुननेवाले पेंशन निधि के सदस्यों को यथानुपात पेंशन लाभ उपलब्ध कराया जाए।
2. अतः, यह आवश्यक है कि संशोधन 1 सितम्बर, 2000 प्रभावी बनाया जाए ताकि पेंशन निधि के सदस्य तथा 15 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले सभी कर्मचारी पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकें।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वव्यापी प्रभाव देने पर यूको बैंक का कोई भी कर्मचारी/अधिकारी, अधिसूचना द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।



के. मुखर्जी
महाप्रबंधक(कार्मिक)

पाद टिप्पणी :- मूल विनियमन भारत के राजपत्र (असाधारण) में 29.09.1995 को अधिसूचित किए गए थे तथा उपर्युक्त यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 में बाद के संशोधन(नों) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार गजट में प्रकाशित करवाया गया था :

| | | |
|---------|-----------------|------------|
| क्रमांक | अधिसूचना संख्या | दिनांक |
| 1 | पीईएन/1/99 | 30.12.1999 |

मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली
वेबसाइट: esicindia.org

शुद्धि पत्र


संख्या:ए-12(11)-1/99-स्था.1(क)--भारत के राजपत्र (संख्या-1) भाग-3, खण्ड-4
दिनांक 5.1.2002 में प्रधान निजी सचिव के भर्ती विनियमों के संबंध में प्रकाशित अधिसूचना
संख्या:ए-12(11)-1/99-स्थापना-1(क) दिनांक शून्य, दिसम्बर, 2001 में निम्नलिखित शब्द हटा
दिया गया है ।

पृष्ठ 96

कॉलम संख्या 12 के अंतर्गत

“प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित” से पहले छपे शब्द “या” को हटा हुआ माना जाए ।

नई दिल्ली
दिनांक:



(डॉ. अजय दुआ)
महानिदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2003


संख्या : यू-16/53/2001/चि0शा0-2(केरल): कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टरों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र) बेंगलूर द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :-

| क्र.सं. | डॉक्टर का नाम | अवधि | केन्द्र का नाम |
|---------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| 1. | डॉ.एल.जे.मुलनथानम | 13.11.2002 से 12.11.2003 | अलेप्पी |
| 2. | डॉ.जोसफ एडविन | 29.12.2002 से 28.12.2003 | कोलम |
| 3. | डॉ.सान्था राजेन्द्रन | 30.11.2002 से 29.11.2003 | कन्नूर |


 (डा. (श्रीमती) सुभाष सिंह)
चिकित्सा आयुक्त

संख्या : यू-16/53/पीटीएमआर/त0ना0-चि0शा0-2: कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र) बंगलूर द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :-

| क्र.सं. | डॉक्टर का नाम | अवधि | केन्द्र का नाम |
|---------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| 1. | डॉ. टी.आर.पाण्डुरंगण | 01.10.2002 से 30.09.2003 | त्रिची |


 (डा. (श्रीमती) सुभाष सिंह)
चिकित्सा आयुक्त

फाइल संख्या:आर-12/16/9/02-बीमा-2 नीति

दिनांक: फरवरी, 2003

सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि क.रा.बी.निगम ने 18.12.2002 की बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया :-

“कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 99 के अधीन उपबंधों के अनुसरण में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा संकल्प करता है कि 31.12.2000 को अथवा पूर्व में रोजगार चोट के परिणामस्वरूप जनित अपंगता अथवा मृत्यु के मामलों में उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत स्वीकृत स्थाई अपंगता और आश्रितजन हितलाभों की आवधिक अदायगी की राशि प्रस्ताव में उल्लिखित सीमा तक बढ़ा दी जाएगी, जो निम्नानुसार है :-

| क्र. सं. | अशक्तता/ मृत्यु का वर्ष | अभी तक की गई कुल बढ़ोतरी | अब प्रस्तावित बढ़ोतरी |
|----------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 31.12.1952 को अथवा इससे पहले हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 2359% | मूल राशि का 2689% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 2. | 1.1.1953 को अथवा इसके बाद 31.12.1953 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 2302% | मूल राशि का 2625% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 3. | 1.1.1954 को अथवा इसके बाद 31.12.1954 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 2418% | मूल राशि का 2757% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 4. | 1.1.1955 को अथवा इसके बाद 31.12.1955 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 2546% | मूल राशि का 2901% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 5. | 1.1.1956 को अथवा इसके बाद 31.12.1956 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 2330% | मूल राशि का 2657% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 6. | 1.1.1957 को अथवा इसके बाद 31.12.1957 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 2197% | मूल राशि का 2505% (पूर्व वृद्धि सहित) |

| | | | |
|-----|--|-------|---------------------------------------|
| 7. | 1.1.1958 को अथवा इसके बाद 31.12.1958 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 2100% | मूल राशि का 2396% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 8. | 1.1.1959 को अथवा इसके बाद 31.12.1959 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 2033% | मूल राशि का 2319% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 9. | 1.1.1960 को अथवा इसके बाद 31.12.1960 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 1990% | मूल राशि का 2271% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 10. | 1.1.1961 को अथवा इसके बाद 31.12.1961 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 1910% | मूल राशि का 2180% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 11. | 1.1.1962 को अथवा इसके बाद 31.12.1962 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 1853% | मूल राशि का 2116% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 12. | 1.1.1963 को अथवा इसके बाद 31.12.1963 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 1800% | मूल राशि का 2055% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 13. | 1.1.1964 को अथवा इसके बाद 31.12.1964 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 1572% | मूल राशि का 1797% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 14. | 1.1.1965 को अथवा इसके बाद 31.12.1965 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 1426% | मूल राशि का 1631% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 15. | 1.1.1966 को अथवा इसके बाद 31.12.1966 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 1284% | मूल राशि का 1470% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 16. | 1.1.1967 को अथवा इसके बाद 31.12.1967 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 1115% | मूल राशि का 1278% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 17. | 1.1.1968 को अथवा इसके बाद 31.12.1968 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 1081% | मूल राशि का 1240% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 18. | 1.1.1969 को अथवा इसके बाद 31.12.1969 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 1094% | मूल राशि का 1255% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 19. | 1.1.1970 को अथवा इसके बाद 31.12.1970 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 1036% | मूल राशि का 1189% (पूर्व वृद्धि सहित) |


| | | | |
|-----|--|-------|---------------------------------------|
| 20. | 1.1.1971 को अथवा इसके बाद 31.12.1971 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 1006% | मूल राशि का 1154% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 21. | 1.1.1972 को अथवा इसके बाद 31.12.1972 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 935% | मूल राशि का 1074% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 22. | 1.1.1973 को अथवा इसके बाद 31.12.1973 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 786% | मूल राशि का 905% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 23. | 1.1.1974 को अथवा इसके बाद 31.12.1974 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 588% | मूल राशि का 680% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 24. | 1.1.1975 को अथवा इसके बाद 31.12.1975 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 551% | मूल राशि का 639% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 25. | 1.1.1976 को अथवा इसके बाद 31.12.1976 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 606% | मूल राशि का 701% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 26. | 1.1.1977 को अथवा इसके बाद 31.12.1977 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 551% | मूल राशि का 639% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 27. | 1.1.1978 को अथवा इसके बाद 31.12.1978 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 535% | मूल राशि का 621% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 28. | 1.1.1979 को अथवा इसके बाद 31.12.1979 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 497% | मूल राशि का 577% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 29. | 1.1.1980 को अथवा इसके बाद 31.12.1980 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 436% | मूल राशि का 508% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 30. | 1.1.1981 को अथवा इसके बाद 31.12.1981 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 280% | मूल राशि का 328% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 31. | 1.1.1982 को अथवा इसके बाद 31.12.1982 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 255% | मूल राशि का 299% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 32. | 1.1.1983 को अथवा इसके बाद 31.12.1983 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 220% | मूल राशि का 259% (पूर्व वृद्धि सहित) |

| | | | |
|-----|--|------|---|
| 33. | 1.1.1984 को अथवा इसके बाद 31.12.1984 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 197% | मूल राशि का 234% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 34. | 1.1.1985 को अथवा इसके बाद 31.12.1985 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 183% | मूल राशि का 217% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 35. | 1.1.1986 को अथवा इसके बाद 31.12.1986 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 162% | मूल राशि का 194% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 36. | 1.1.1987 को अथवा इसके बाद 31.12.1987 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 143% | मूल राशि का 172% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 37. | 1.1.1988 को अथवा इसके बाद 31.12.1988 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 127% | मूल राशि का 154% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 38. | 1.1.1989 को अथवा इसके बाद 31.12.1989 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 111% | मूल राशि का 136% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 39. | 1.1.1990 को अथवा इसके बाद 31.12.1990 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 96% | मूल राशि का 119% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 40. | 1.1.1991 को अथवा इसके बाद 31.12.1991 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 75% | मूल राशि का 95% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 41. | 1.1.1992 को अथवा इसके बाद 31.12.1992 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 59% | मूल राशि का 77% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 42. | 1.1.1993 को अथवा इसके बाद 31.12.1993 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 51% | मूल राशि का 68% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 43. | 1.1.1994 को अथवा इसके बाद 31.12.1994 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 39% | मूल राशि का 55% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 44. | 1.1.1995 को अथवा इसके बाद 31.12.1995 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 29% | मूल राशि का 43% (पूर्व वृद्धि सहित) |
| 45. | 1.1.1996 को अथवा इसके बाद 31.12.1996 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 20% | मूल राशि का 33% (पिछली वृद्धि शामिल है ।) |

| | | | |
|-----|--|-------|---|
| 46. | 1.1.1997 को अथवा इसके बाद 31.12.1997 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | 14% | मूल राशि का 26% (पिछली वृद्धि शामिल है ।) |
| 47. | 1.1.1998 को अथवा इसके बाद 31.12.1998 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | शून्य | मूल राशि का 14% |
| 48. | 1.1.1999 को अथवा इसके बाद 31.12.1999 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | शून्य | मूल राशि का 10% |
| 49. | 1.1.2000 को अथवा इसके बाद 31.12.2000 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले । | शून्य | मूल राशि का 7% |

यह भी संकल्प किया गया कि स्थाई अपंगता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ की वर्धित दरें, जैसा भी मामला हो, 1.8.2002 से प्रभावी होंगी ।

क.रा.बी.अधिनियम, 1948 की धारा 7 के अधीन अधिप्रमाणित ।



महानिदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2003

सं. एन-15/13/6/5/2002-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1948 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2003 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे, अर्थात् :--

“जिला पत्तनमतिट्टा के अडूर तालुक में कोडुमण के अधीन आने वाले क्षेत्र”।

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/6/10/2002-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2003 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे, अर्थात् :--

“जिला कण्णूर के तलशेशरी तालुक में पांडु विलायी और मोकेरी, जिला-कसारगोड के होसदुर्ग तालुक में तृकरिपुर तथा जिला-एरणाकुलम के आलुवाय तालुक में मूक्कानूर और पारक्काडवु के अधीन आने वाले क्षेत्र”।

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/10/4/2002-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2003 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा उड़ीसा कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1951 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे, अर्थात् :--

1. बालेश्वर जनपद में रेमुना थाना के अन्तर्गत माधोपुर, रसलपुर, नुआपाडी राजस्व गांव

2. कटक जनपद में गुरुडीझाटिया थाना के अन्तर्गत कपूरसिंह एवं राधादामोदरपुर राजस्व गांव

3. गंजाम जनपद में बरहमपुर तहसील के अन्तर्गत कुकुंडाखण्डी राजस्व गांव

4. रायगडा जनपद में रायगडा तहसील के अन्तर्गत कोलीगुडा, कोटपेटा, कादम्बरीगुडा, देबदोला एवं कोमटलपेटा राजस्व गांव।

एवं

5. सुन्दरगढ़ जनपद के अंतर्गत राउकेला तहसील के बंकिया एवं कपाटमुण्डा तथा पानापोश तहसील के अंतर्गत सान-नुआगांव एवं चिकटमाटी राजस्व गांव।

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/7/2/98-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2003 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे, अर्थात् :--

“कर्नाटक राज्य के जिला तथा तालुक शिवमोग में होबली निडिगे-1 के राजस्व ग्राम मचेनहल्ली तथा निडिगे के अधीन आने वाले क्षेत्र”।

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/14/5/91-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2003 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे, अर्थात् :--

कारैक्कुडी तालुक के राजस्व गांव :--

1. अमरावती

2. पुदूर

3. के नेर्पुणपट्टी

4. कोतारी
5. कलनिवासल
6. काविलूर
7. कोटैयूर
8. अरियक्कुडी
9. कारैक्कुडी और

कारैक्कुडी नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रादि।

10. चेक्कलैक्कोट्टै राजस्व समूह के अंतर्गत आने वाले--संकरापुरम
11. मनगिरि चुक्कनेन्दल राजस्व समूह के अंतर्गत--पातरकुडी
12. कानाडुकाथान राजस्व समूह के अंतर्गत--चेट्टिनाडु
13. देवकोटै तालुक के--अरवायल
14. सिरावयल
15. कुन्नक्कुडी (कुन्नक्कुडी)
16. इलंगुडी राजस्व समूह के--तलक्कावूर

तिरुपत्तूर के सिवांगै जिला में।

-----आने वाले क्षेत्रादि।

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/14/2/2001-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2003 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे, अर्थात् :--

“कोयम्बतूर जिला में पल्लडम तालुक के गणपतिपालयम परुवाय करडीवावी और तिरुपुर तालुक के--वी. कल्लिपालयम आदि राजस्व ग्राम”।

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 6 मार्च 2003

सं. एन-15/13/8/5/2001-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी

राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2003 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे, अर्थात् :--

“हेवी इन्डस्ट्रियल एरिया को शामिल करते हुए सम्पूर्ण राजस्व ग्राम हायकोज”।

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/8/1/2001-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मार्च, 2003 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे, अर्थात् :--

“तहसील चांपा जिला-जांजगीर के औद्योगिक क्षेत्र चांपा सहित राजस्व ग्राम-चांपा एवं हथनेवरा तथा तहसील एवं जिला-जांजगीर के अंतर्गत राजस्व ग्राम-लछनपुर एवं बिरगहनी में शामिल क्षेत्र”।

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 7 मार्च 2003

सं. एन-15/13/6/11/2002-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी 2003 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे, अर्थात् :--

“जिला एरणाकुलम के कोचीन तथा आलुवा तालुक में एडवनक्काड और तुरावूर, जिला-इडुक्की के तालुक तोडुपुष्पा में करिनकुन्म तथा जिला तिरुवनन्तपुरम के नेयाटिनकरा तालुक में तिरुपुरम और कोल्लायिल के अधीन आने वाले क्षेत्र”।

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक : 13.2.2003

संख्या:वी-33(13)8/2000-स्था.4, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-25 के अमुसरण में अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्नाटक राज्य के क्षेत्रीय बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

| क्र.सं. | नाम. | पदनाम | विनियम के अंतर्गत |
|---------|--|---------------------------------|-------------------------|
| 1. | श्रम मंत्री, कर्नाटक सरकार, विधान सौध बेंगलूर-1 | अध्यक्ष | 10(1)(क) |
| 2. | प्रधान सचिव कर्नाटक सरकार, श्रम विभाग, एम.एस.बिल्डिंग डॉ अम्बेडकर विधि बेंगलूर-1 | उपाध्यक्ष | 10(1)(ख) |
| 3. | श्रम आयुक्त, कर्नाटक कार्मिक भवन, बेनरुघाटा रोड बेंगलूर-29 | सदस्य | 10(1)(ग) |
| 4. | निदेशक क.रा.बी.योजना(चिकित्सा)सेवायें राजाजी नगर, बेंगलूर-10 | सदस्य | 10(1)(घ)(I) |
| 5. | उप चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी.निगम (दक्षिण जोन) नं.10, बिन्नी फील्ड बिन्नीपेट, सरबी सर्कल बेंगलूर-23 | सदस्य | 10(1)(घ)(II) |
| 6. | श्री एम.पी.श्याम प्रबंध निदेशक मैसूर फीडस लिमिटेड नायन्दाहली मैसूर रोड, बेंगलूर । | नियोजक प्रतिनिधि | 10(1)(ङ) |
| 7. | श्री अयप्पा, अध्यक्ष नियोजक एसोसिएशन केयर ऑफ इंटरनेशनल इस्टीट्यूट 104, होसर रोड, बेंगलूर । | नियोजक के अतिरिक्त प्रतिनिधि | विनियम 10 का परन्तुक |
| 8. | श्री एम.जी.प्रभाकर नं.79, 14 क्रॉस 11 फेज़, जे.पी.नगर बेंगलूर-5600 078 | -वही- | -वही- |

| | | | |
|-----|--|--|-------------------------|
| 9. | श्री एन.कृष्णाचारी अध्यक्ष कर्नाटक प्रदेश जनरल वर्क्स काँग्रेस कृष्णा रेड्डी बिल्डिंग राममूर्ति नगर के समीप पुलिस स्टेशन, बेंगलूर-16. | कर्मचारी प्रतिनिधि | 10(1)(ड) |
| 10. | श्री गणपति हेगड़े अध्यक्ष कर्नाटक वर्क्स यूनियन सीटू कार्यालय, तृतीय तल, वी.जी.गोपाल बिल्डिंग, लालबाग फोर्ट रोड बेंगलूर-4 | कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि | विनियम 10 का परन्तुक |
| 11. | श्री एम.के.सुदर्शन जनरल सेक्रेटरी भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स एम्पलाइज़ ट्रेड यूनियन काँग्रेस नं.3, श्री निवास 4 मेन रोड, श्रीकण्ठेश्वरा नगर महालक्ष्मी लेआउट स्वीमिंग पुल के समीप बेंगलूर-96. | कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि | विनियम 10 का परन्तुक |
| 12. | श्री आलमपल्ली वेंकटराम अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ सूबेदार चठराम रोड बेंगलूर-9. | -वही- | -वही- |
| 13. | श्री बी.सी.प्रभाकर सचिव कर्नाटक स्टेट नियोजक एसोसिएशन नं.135, सर्वेयर स्ट्रीट बासवनागुडी बेंगलूर | पदेन सदस्य (राज्य में रहने वाले क.रा.बी.निगम के सदस्य) | 10(1)(च) |
| 14. | डा.के.सी.राजू रेड्डी, परामर्शी डॉक्टर राजू नर्सिंग होम लिंगाराजपुरम बेंगलूर-560 048 | चिकित्सा व्यवसाय के सदस्य | 10(2) |
| 15. | क्षेत्रीय निदेशक क.रा.बी.निगम, क्षेत्रीय कार्यालय कर्नाटक | सदस्य-सचिव | 10(3) |

31/4/03
(डॉ. अजय दुआ)
महानिदेशक

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2001-2002
दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर के प्रशासन पर अपने कार्यकाल की दूसरी वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट (वर्ष 2001-2002) पेश कर रहा हूँ ।

2. वर्ष के शुरु में निम्नलिखित दरगाह समिति के सदस्य थे ।

- | | |
|--|---------------|
| 1. जनाब अब्दुल माबूद खॉ साहिब, | भदोई |
| 2. मौलाना मोहम्मद यासीन अख्तर मिस्बाही | दिल्ली |
| 3. जनाब एम.एस. फारुकी साहिब | बम्बई |
| 4. जनाब प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहिब, | नई दिल्ली |
| 5. जनाब इस्माईल यूसूफ बेग साहिब, | गोवा |
| 6. मौलाना जमील अहमद इल्यासी साहिब | दिल्ली |
| 7. जनाब रईस मियाँ चिरती साहिब, | फतेहपुर सीकरी |
| 8. श्रीमती साजिदा बेगम, | मालेर कोटला |

- 2.1 जनाब हाजी ईनायत हुसैन कुरेशी, साकिन इंदोर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने नोटिफिकेशन क्रमांक: एस.ओ. 1042 (ई) दिनांक: 16 अक्टूबर 2001 के द्वारा दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर का सदस्य मनोनित किया ।
3. वर्ष 2001-2002 के लिए जनाब अब्दुल माबूद खॉ साहिब अध्यक्ष और जनाब इस्माईल यूसूफ बेग उपाध्यक्ष चुने गए ।
4. जनाब शकील अहमद, आर.सी.एस., नाजिम दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर की उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने नोटिफिकेशन क्रमांक: एस.ओ. निल (ई) दिनांक: 03 अगस्त, 2001 के द्वारा उनका कार्यकाल दिनांक 27 जुलाई 2002 तक बढ़ाया गया ।
5. दरगाह वित्त : आय और खर्च के आँकड़े निम्नलिखित हैं । वर्ष 2000-2001 की आय के आँकड़े भी तुलनात्मक अध्ययन के लिए दिए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं ।

| क्रम संख्या | आमद खर्च विवरण | वर्ष 2000-2001 | वर्ष 2001-2002 |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 5.1 | वर्ष के शुरु में ओपनिंग बैलेंस | 8,74,761 | 3,90,723 |
| 5.2 | वर्ष के दौरान आय (+) | 1,62,83,827 | 1,66,62,663 |
| | कुल आय | 1,71,58,588 | 1,70,53,386 |
| 5.3 | वर्ष के दौरान खर्च (-) | 1,69,67,473 | 1,68,58,660 |
| 5.4 | क्लोजिंग बैलेंस चालू खाता में | 1,91,115 | 1,94,726 |
| 5.5 | आरक्षित फण्ड | 50,02,000 | 55,48,468 |
| 5.6 | कल्याणकारी और सखावत के कार्यों पर वर्ष 2000-2001 की तुलना में अधिक खर्च हुआ जिसकी तफसील निम्न है । | | |

| क्रम संख्या | आमद खर्च विवरण | वर्ष 2000-2001 | वर्ष 2001-2002 |
|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | विशेष लंगर रमजान माह के दौरान | 3,87,487 | 3,70,011 |
| 2. | मेडीकल सहायता | 1,30,794 | 1,25,754 |

| | | | |
|-----|---|-----------|-----------|
| 3. | लावारिश मैयतों का कफन दफन | 80,565 | 78,274 |
| 4. | निशुल्क औषधि वितरण | 4,59,582 | 3,38,892 |
| 5. | बिधवाओं को पेंशन | 3,96,930 | 4,33,659 |
| 6. | जरूरत मंदों की सहायता | 85,682 | 95,820 |
| 7. | शिक्षा पर खर्च | 3,40,872 | 4,76,456 |
| 8. | दारुल उलूम | 2,18,830 | 2,32,377 |
| 9. | ख्वाजा मॉडल स्कूल | 7,85,845 | 6,31,643 |
| 10. | कम्प्यूटर सेन्टर | 1,84,432 | 4,06,056 |
| 11. | ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल चलाने पर खर्च | 1,65,446 | 2,54,686 |
| 12. | जकात | 35,151 | 31,510 |
| 13. | दरगाह कर्मचारियों के वेतन पर | 54,30,314 | 58,31,088 |

6. लंगर और रमजान लंगर : दरगाह समिति की तरफ से प्रतिदिन दो वक़्त का लंगर बिना किसी जॉट पात या भेदभाव के बाँटा जाता है। लंगर के लिए जौ एवं गेहूँ के लिए तीन लाख सतासी हजार रुपये का बजट चालू वित्तीय वर्ष में खर्च किया गया है। 142 किंवटल गेहूँ और 84 किंवटल जौ खर्च हुआ।

- 6.1 यह खर्च रमजान के मास में दिए जाने वाले स्पेशल लंगर, जो कि लगभग 400 व्यक्तियों को प्रतिदिन दिया जाता है के खर्च से अलग है। केन्द्रीय कारागृह में कैदियों के लिए अलग से इफ्तारी जैसे कि खजूर, फल इत्यादि का प्रबंध किया जाता है जो कि रोजा रखते हैं। इस मद पर कुल खर्चा 0.81 लाख रुपये का हुआ।

7. मेडीकल सुविधाएँ : वर्ष भर यूनानी दवाखाना और होम्योपैथिक दवाखाना दरगाह कमेटी द्वारा चलाए जाते हैं। दोनों दवाखानों के लिए दवाओं इत्यादि की खरीद पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 3.22 लाख रुपये का खर्चा आया। चालू वर्ष के दौरान यूनानी शफाखाने और होम्योपैथिक दवाखाने में 53000 हजार मरीजों का निशुल्क इलाज किया गया।

8. शिक्षा के प्रोग्राम :

8.1: दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया :- कुल 2.32 लाख रुपये दारुल उलूम पर खर्च किए गए। 63 छात्रों (तलबा) ने परीक्षा में भाग लिया एवं 10 शायबान 1422 हिजरी को 61 छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किया गया।

54 छात्र राजस्थान से बाहर के एवं 28 स्थानीय छात्र विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे थे जिनका विवरण निम्न है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 82 थी।

| क्रम संख्या | कक्षा | विद्यार्थियों की संख्या |
|-------------|---------|-------------------------|
| 1. | तेहतानी | 41 |
| 2. | हिफ्ज़ | 25 |
| 3. | फोकानी | 16 |
| | कुल | 82 |

8.2.1 ख्वाजा मॉडल स्कूल: चालू वित्तीय वर्ष में 6.32.00 लाख रुपये ख्वाजा मॉडल स्कूल पर खर्च किए गए। कुल 182 छात्र / छात्राएँ कक्षा नर्सरी से पाँचवी कक्षा तक अध्ययनरत थे।

8.2.2 ख्वाजा मॉडल स्कूल के भवन निर्माण के लिए एक नक्शा बना कर मंजूरी हेतु पेश किया गया था जिसे कि नगर परिषद ने स्वीकृत कर दिया है। बहुत जल्द कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हमारा यह प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा राशि सांसद विकास फण्ड से प्राप्त करें।

8.3: गरीब नवाज कम्प्यूटर सेन्टर : नोजवानों के लिए एक कम्प्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम दरगाह अपार्टमेंट सिविल लाईन्स में राष्ट्रीय परिषद बराए तरक्की उर्दू भाषा, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से चल रहा है। वर्तमान में 11 कम्प्यूटर्स हैं और 54 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जिनमें दो बैचों में बांटें हुआ है। दो फेक्लटी मेम्बर, राष्ट्रीय परिषद बराए तरक्की उर्दू भाषा, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ने उपलब्ध कराए हैं। कम्प्यूटर सेन्टर के लिए 4.41 लाख रुपए का खर्चा दरगाह समिति द्वारा किया गया है। वर्ष 2000-2001 के बैच में 65 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे जिनमें से 57 को उत्तीर्ण घोषित किया गया।

8.4: ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल : ब्यावर जिला अजमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में दरगाह समिति इस समय 6 स्कूल चला रही है। इसमें लगभग 2.55 लाख रुपए का खर्च आया है। कुल 369 छात्र / छात्राएँ इस समय अध्ययनरत हैं।

9. बाबा फरीद गंज-ए-शकर का (र.अ.) का चिल्ला खुलवाना :

4 से 6 मुहर्रम 1423 हिजरी यानि 19 मार्च 2001 से बाबा फरीद गंज-ए-शकर (र.अ.) का चिल्ला 72 घंटे के लिए खोला गया। लगभग बीस हजार जायरीनों ने जियारत की। तमाम इतेजामात दरगाह प्रशासन द्वारा किए गए।

10. दरगाह शरीफ की रसूमात :

ख्वाजा गरीब नवाज (र.अ.) का वार्षिक उर्स, ख्वाजा गरीब नवाज (र.अ.) के गुरु ख्वाजा उस्मान हारुनी (र.अ.) का उर्स, छठी शरीफ, चौदहवीं शरीफ की रसूमात अदा कराई गई। शाह जहानी मस्जिद में खुल्फा-ए-राशिदेन की बर्सी पर तकरीर (वाज) कराया गया। ईद मोलादुननबी (स.अ.व.) को परम्परागत तरीके से मनाया गया। ईदुल फितर और ईदुल जुहा की नमाजों के लिए भी ईदगाह और दरगाह शरीफ में प्रबंध किया गया।

11. वार्षिक उर्स : 788 वॉ ख्वाजा गरीब नवाज (र.अ.) का वार्षिक उर्स दिनांक 19.09.2001 से मनाया गया। कुल की रस्म 27 सितम्बर 2001 को यानि 9 रजब 1422 हिजरी को हुई जिसमें पूरी दरगाह को केवड़ा जल से धोया गया। तकरीबन 7 लाख जायरीन ने उर्स में भाग लिया। जिला प्रशासन अजमेर एवं दरगाह प्रशासन ने जायरीनों के लिए माकूल इतेजामात किए। दूरसंचार विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, पोस्ट ऑफिस एवं रेलवे ने अपनी सेवाएँ देने के लिए दरगाह गेस्ट हाउस में काउंटर खोले। विश्राम स्थलियों पर जायरीन को पहचान पत्र दरगाह प्रशासन ने उपलब्ध कराए।

12. दरगाह ख्वाजा साहिब के लेखों की लेखा परीक्षा : दरगाह के लेखों का वर्ष 2000-2001 का ऑडिट चाटर्ड अकाउंटेंट द्वारा कर लिया गया है एवं महालेखाकार, राजस्थान को दरगाह के लेखों का ऑडिट करने हेतु लिखा जा चुका है। वर्ष 2000-2001 का ऑडिट लेखा परीक्षा दल ने माह मई 2002 में किया।


13. किराएदारी / लाईसेंसी की आमद में बढ़ोतरी : वर्ष के दौरान दरगाह जायदाद से किराए / लाईसेंसी की आय में 3.11 लाख रुपए की वार्षिक बढ़ोतरी हुई। 3,56,000.00 रुपए किरायादारी परिवर्तन से दान के रूप में प्राप्त हुए।

14. वातानुकूलित कक्ष : कमरा नम्बर 122 एवं 118 को ए.सी. कक्षों में परिवर्तित किया गया। एयरकन्डीशनर्स श्री फिरोज खॉ, अतिरिक्त उपायुक्त, आयकर एवं श्री आरिफ मोहम्मद खान साहिब, सांसद ने भेंट किए।
15. सोने का काम : बेगम्मी दालान में सोने का काम अंजुमन मोईनिया फखरिया चिरतिया, अजमेर ने कराया।
16. मजार मुबारक पर गुलाब, मोमबत्तियों एवं संदल को पेश करना : पुरानी परम्परा के अनुसार निम्नलिखित खर्च मजार मुबारक पर गुलाब, संदल पेश किए गए एवं मोमबत्तियों गुम्बद शरीफ में रोशनी हेतु पेश की गई।
- | | | |
|----|------------------------------|----------|
| 1. | गुलाब के फूल (गुल-ए-सुर्ख) | 1.08 लाख |
| 2. | संदल | 0.51 लाख |
| 3. | मोमबत्तियों | 0.65 लाख |
17. मंरम्मत एवं अनुरक्षण : निम्नलिखित कार्य चालू वर्ष के दौरान कराए गए।

| क्रम संख्या | नाम जायदाद | खर्च की गई रकम |
|-------------|------------------------------|----------------|
| 1. | जायदाद शहरी दरगाह कमेटी | 0.87 लाख |
| 2. | अतिथिग्रह का अनुरक्षण | 1.23 लाख |
| 3. | दरगाह अपार्टमेंट का अनुरक्षण | 0.06 लाख |
| 4. | दरगाह शरीफ का अनुरक्षण | 3.03 लाख |

18. कल्याणकारी कार्य एवं वित्तीय सहायता : निम्नलिखित बड़े खर्च कल्याणकारी एवं सामाजिक कार्यों पर किए गए।
- 18.1 विधवाओं को पेंशन : वर्ष के दौरान 4,33,700/- लाख रुपए की राशि विधवाओं एवं जरूरत मंद व्यक्तियों पर खर्च की गई।
- 18.2 गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति : वर्ष के दौरान 72,00,000/- रुपए की छात्रवृत्ति दी गई।
- 18.3 लावारिसा मयय्तों का कफन दफन : 78,300/- रुपए लावारिसा मयय्तों के कफन दफन हेतु खर्च किए गए।
- 18.4 जरूरत मंदों को (सादरो वारिद) वित्तीय सहायता : वर्ष के दौरान 95,800/- रुपए की सहायता उपर्युक्त व्यक्तियों को दी गई।
- 18.5 मोहम्मद अली सी.सैकण्डरी स्कूल ब्यावर को वित्तीय सहायता : वर्ष के दौरान 18,000/- रुपए की सहायता मोहम्मद अली सी.सैकण्डरी स्कूल ब्यावर को दी गई।
- 18.6 सर्विस गार्डेंन्स ब्यूरो जयपुर : दस हजार रुपए (10,000/-) की वित्तीय सहायता सर्विस गार्डेंन्स ब्यूरो जयपुर को दी गई।
- 18.7 दरगाह सरवाड़ शरीफ को वित्तीय सहायता : 6,000/- रुपए की वित्तीय सहायता दरगाह सरवाड़ शरीफ को दी गई।
19. उप समितियों की बैठके : वर्ष के दौरान उपसमितियों की चार बैठके आयोजित हुई।
20. दरगाह समिति की बैठक : वर्ष के दौरान 5 बैठके दरगाह समिति की दरगाह शरीफ के मामलात के बारे में आयोजित हुई।
21. अति विशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा दरगाह जियारत : निम्नलिखित अतिविशिष्ट व्यक्तियों ने दरगाह की जियारत की जिनको की रिकार्ड करना जरूरी है।

1. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, भारत सरकार ।
 2. श्रीमती गिरीजा ध्यास, अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस एवं सांसद, उदयपुर राजस्थान ।
 3. श्री दिग्विजय सिंह, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश, सरकार ।
 4. श्री अलताफ हुसैन, सेलिसिटर जनरल, भारत ।
 5. श्री हुकम देव नारायण, केन्द्रीय मंत्री, जहाजरानी, भारत सरकार ।
 6. श्री प्रमोद तिवारी, नेता विपक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार ।
 7. श्री एल.के.वर्मा, एयर मार्शल, भारतीय वायुसेना ।
 8. श्री डाक्टर फारुख अब्दुल्ला, मुख्य मंत्री, कश्मीर ।
 9. श्री उमर अब्दुल्ला, केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार ।
 10. श्री डाक्टर ए.पी.जे. अबुल कलाम, वैज्ञानिक, भारत सरकार ।
 11. श्री चन्द्राकान्त खरे, सांसद, ओरंगाबाद ।
 12. श्री इकबाल अहमद सरादगी, सांसद, गुलबर्गा ।
 13. श्री जी. एम. बनावतवाला, सांसद, मुम्बई ।
 14. श्री सलीम इकबाल शेरवानी, सांसद, इलाहाबाद ।
 15. श्री एम. कादिर, सांसद, नई दिल्ली ।
 16. श्री रमानंद सिंह, सांसद, सतना ।
 17. श्री विष्णु दत्त शर्मा, सांसद, जम्मू ।
 18. जस्टिस शमीम अहमद, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार ।
 19. श्रीमती बेनजीर भुट्टो, पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान ।
 20. श्री सत्यानारायण जटिया, केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
22. अंत में मैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दरगाह समिति के तमाम सदस्यों का आभारी हूँ जिनके मार्ग दर्शन से प्रशासनिक और अन्य दरगाह से संबंधित समस्याओं का निपटारा कर सका ।
- मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि दरगाह के वित्तीय साधन बढ़ाऊँ तथा सम्पत्तियों को सुरक्षित रखूँ एवं जायरीनों को बेहतर से बेहतर सुविधाएँ दरगाह कमेटी के मार्ग दर्शन में देऊँ ।


 शकील अहमद,
 आर.सी.एस.
 नाजिम, दरगाह कमेटी,
 दरगाह ख्वाजा साहिब,
 अजमेर ।

वर्ष 2000-2001 के लिये दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर के लेखों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्रस्तावना

1.1 ख्वाजा मोइनुद्दीन चश्ति की दरगाह और उनके धर्मादा, जिसे सामान्यतया दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर के नाम से जाना जाता है, के उचित प्रबन्धन हेतु वर्ष 1955 में संसद द्वारा दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दरगाह के धर्मादा में निम्न सम्मिलित हैं :

- (अ) दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर,
- (ब) दरगाह शरीफ की सीमा में सभी इमारतें और चल सम्पत्ति,
- (स) दरगाह जागीर जिसमें दरगाह शरीफ से सम्बन्धित सभी भूमि, भवन, दुकानें और सभी चल सम्पत्ति जहाँ भी स्थित हो,
- (द) अन्य सभी सम्पत्ति और समस्त आय जिस भी स्रोत से दरगाह को समर्पित हो अथवा धार्मिक, पाक, खैराती उद्देश्यों के लिये दरगाह प्रशासन के अधीन रखी गई हो जिसमें अजमेर के होकरान तथा किशनपुर गावों की जागीरदारी भी सम्मिलित है, और
- (इ) दरगाह की ओर से नाजिम अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को प्राप्त सभी नजरानों अथवा भेंट की आय।

1.2 दरगाह धर्मादा का प्रबन्धन, नियंत्रण तथा व्यवस्था दरगाह समिति, अजमेर में निहित है जो अपने कार्य समिति की सलाह से केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नाजिम के द्वारा करती है। नाजिम दरगाह प्रशासन का मुख्य अधिशाषी अधिकारी होता है जो समिति के सचिव का कार्य भी करता है।

1.3 पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19(2) के अन्तर्गत समिति प्रतिवर्ष दरगाह के प्रशासन पर एक प्रतिवेदन तैयार करेगी जो दरगाह के लेखों तथा उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी। वर्ष 1999-2000 और 2000-01 की वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट मय वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के, भारत सरकार के दिनांक 19.1.2002 के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।

1.4 पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत दरगाह के लेखों की लेखापरीक्षा प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशित व्यक्ति से तथा निर्धारित प्रक्रिया से करवाया जाना अपेक्षित है। केन्द्र सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उनके (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971

की धारा 20(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत दरगाह की लेखापरीक्षा वर्ष 1998-99 से 2002-2003 तक 5 वर्षों के लिये सौपी है।

दरगाह के वर्ष 2000-2001 के प्राप्ति एवं भुगतान का सारांश नीचे दिया गया है:

प्राप्ति और भुगतान का विवरण

(रुपये लाख में)

| प्राप्ति का विवरण | राशि | भुगतान का विवरण | राशि |
|--|--------|---------------------------------|--------|
| आदि शेष | 53.77 | वेतन और भत्ते | 56.58 |
| जागीर से आय | 60.74 | कार्यालय व्यय | 10.52 |
| सम्पत्ति से आय (किराये की आय) | 20.12 | दरगाह शरीफ के व्यय | 33.43 |
| नजर से आय | 56.07 | गुम्बद शरीफ का भीतरी व्यय | 3.27 |
| अनुदान से आय | 00.08 | दवाखाना व्यय | 1.31 |
| मियादी जमा और बचत बैंक खाता से ब्याज की आय | 4.19 | दारुलुलूम व्यय | 2.19 |
| कर्ज की वसूली | 2.97 | सहायता व्यय | 10.55 |
| अतिथि गृह से आय | 65.86 | अतिथि गृह व्यय | 12.32 |
| ख्वाजा माडल स्कूल से आय | 4.23 | दरगाह अपार्टमेंट व्यय | 2.60 |
| गरीब नवाज कम्प्यूटर सेंटर से आय | 4.75 | मरम्मत और रखरखाव | 11.09 |
| निर्माण के लिये दान | 2.15 | ख्वाजा माडल स्कूल पर व्यय | 7.86 |
| विविध आय | 3.06 | गांव में प्राथमिक स्कूल पर व्यय | 1.65 |
| | | कम्प्यूटर सेंटर पर व्यय | 1.84 |
| | | निर्माण पर व्यय | 3.34 |
| | | कर्ज की चुकौती | 1.63 |
| | | विविध व्यय | 3.88 |
| | | अन्तिम शेष | 53.93 |
| योग | 217.99 | योग | 217.99 |

लेखों पर टिप्पणियाँ

2. तुलनपत्र

2.1 सोने का स्टॉक रुपये 0.62 लाख कम दर्शाया जाना

स्टॉक में पड़े 599.790 ग्राम सोने का मूल्य प्राप्तिवर्ष की प्रचलित बाजार कीमत के आधार पर तुलन पत्र में रुपये 2.03 लाख बताया गया जबकि इसका मूल्यांकन वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रचलित दर रुपये 441.37 प्रति ग्राम के आधार पर रुपये 2.65 लाख आंकना था। इस तरह परिसम्पत्तियाँ और दायित्व रुपये 0.62 लाख से कम बताये गये ।

दरगाह कमेटी ने सूचित किया (सितम्बर 2002) कि विशिष्ट वर्ष के दौरान प्राप्त सोने की मात्रा का मूल्य उसी वर्ष में प्रचलित दर के आधार पर लगाया जाता था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्टॉक में पड़े सोने का मूल्यांकन वर्तमान बाजार कीमत पर न करने से तुलनपत्र उसका सही मूल्य नहीं दर्शाता ।

3. सामान्य

3.1 खादिमों द्वारा 'नजर' और 'भेंट' की अनधिकृत प्राप्ति के कारण हानि

1958 के उपनियमों का पैरा 16(ग) बतलाता है कि खादिम किसी भी व्यक्ति से दरगाह या ख्वाजा साहिब के नाम पर कोई नजर या भेंट न तो लेंगे और न मांगेंगे ।

फिर भी दरगाह में कार्यरत लगभग 2100 खादिमों द्वारा 'नजर' या 'भेंट' प्राप्त करने की गतिविधि को दरगाह प्रशासन रोक नहीं पाया । तथापि, खादिमों के संघ (अंजुमन) ने देग में चढ़ावे (ओफरिंग) का ठेका रुपये एक करोड़ में छोड़ा जो देग की कुल प्राप्ति में अंजुमन के 10 प्रतिशत हिस्से के बराबर था । नाजिम के द्वारा संयुक्त संसदीय समिति को प्रस्तुत रिपोर्ट में भी उसका उल्लेख था । इसके अतिरिक्त नजर बॉक्स में प्राप्त 'नजुरात' का केवल 1 प्रतिशत हिस्सा ही दरगाह कमेटी को मिलता है तथा शेष 99 प्रतिशत हिस्सा खादिमों को प्राप्त होता है । देग में चढ़ावे (ड्रापिंग्स) का मामला दरगाह कमेटी और अंजुमन के बीच 1970 से न्यायालय में विचाराधीन है।

दरगाह कमेटी से कोई टिप्पणी नहीं मिली (सितम्बर 2002) ।

3.2 दरगाह ख्वाजा साहिब की सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा

वर्ष 1637 ईस्वी में दरगाह को दी गई 17 गांवों की जागीर राजस्थान सरकार ने वर्ष 1956 में अधिकृत कर ली । 1956 के बाद दरगाह की सम्पत्ति राजस्व रिकार्ड के अनुसार न तो मूल्यांकित की गई और न ही उसका भौतिक सत्यापन

हुआ । दरगाह में रखे सम्पत्तियों के रजिस्टर में उन सम्पत्तियों का ब्यौरा नहीं था जो अजमेर और उसके बाहर दरगाह के कब्जे में होनी चाहिये थी । इसके परिणामस्वरूप नीचे वर्णित सम्पत्तियां नगर विकास न्यास (न.वि.न्या)/नगर परिषद् इत्यादि द्वारा अनधिकृत कब्जा की हुई थी :

| क्रम संख्या | सम्पत्ति का स्थान | कुल क्षेत्र | | कब्जे का क्षेत्र | | कब्जाधारी का ब्यौरा |
|-------------|--------------------------|-------------|--------|------------------|--------|---------------------|
| | | बीघा | बिस्वा | बीघा | बिस्वा | |
| 1 | लोहा खान, न्यू बस्ती | 63 | 15 | 54 | 7 | नगर विकास न्यास |
| 2 | जवाहर नगर (शास्त्री नगर) | 18 | 10 | 18 | 10 | नगर विकास न्यास |
| 3 | लोहा खान | 1 | 5 | 1 | 5 | नगर परिषद |
| | योग | 83 | 10 | 74 | 02 | |

दरगाह कमेटी ने सूचित किया (सितम्बर 2002) कि मामलों को निपटाने की कार्यवाही जारी थी ।

3.3 विदेशी अंशदान की विवरणी प्रस्तुत न करना

भारत सरकार, गृहमंत्रालय (मंत्रालय) के परिपत्र दिनांक 31 जुलाई 1987 में उल्लेख है कि विदेशी वस्तुओं के दान प्राप्त होने की स्थिति में संगठन को मंत्रालय को फार्म एफ.सी.-6 में विवरणी प्रस्तुत करनी होगी । इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने अपने परिपत्र दिनांक 25 सितम्बर 1987 में अनुदेश दिये थे कि ब्यौरे शून्य होने पर भी विवरणी प्रस्तुत की जानी चाहिये ।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि फार्म एफ.सी.-6 में विवरणी मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की जा रही थी ।

वर्ष 2000-01 के दौरान विभिन्न देशों से प्राप्त रुपये 0.65 लाख के डिमाण्ड ड्राफ्ट, चैक, पोस्टल आर्डर वर्ष 2000-01 की विदेशी अंशदान की कौशबुक में इन्द्राज नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप वे मंत्रालय को भेजी गई वार्षिक विवरणी में नहीं दिखाये जा सके ।

दरगाह कमेटी ने सूचित किया (सितम्बर 2002) कि फार्म एफ.सी.-6 मंत्रालय को उम वर्ष भेजना था जिस वर्ष में विदेश से कोई वस्तु प्राप्त हुई हो, न कि उस वर्ष में जब ब्यौरा शून्य था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार ब्यौरा शून्य होने पर भी विवरणी प्रस्तुत की जानी थी । कमेटी ने आगे सूचित किया कि विदेशों से भारतीय रुपये में प्राप्त राशि को विदेशी अंशदान की कैशबुक में इन्द्राज करने के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ।



(आनन्द शंकर)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-प्रथम
राजस्थान, जयपुर

स्थान: जयपुर

दिनांक : 25 अक्टूबर 2002

लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर के 31 मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय और व्यय लेखा तथा दिनांक 31 मार्च 2001 के तुलनपत्र की जाँच करली है । मैंने सभी अपेक्षित सूचनायें और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं और संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अध्यक्षीन अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में दिये गये उल्लेख के अनुसार ये लेखे और तुलनपत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गये हैं और दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं ।



(आनन्द शंकर)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-प्रथम
राजस्थान, जयपुर

स्थान: जयपुर

दिनांक : 25 अक्टूबर 2002

DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION

Mumbai, the 29th March 2003

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No.F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No.67 dated 21st February 1990), the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended December 2002 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"

| No. of Security | Value in Rs./Grams | In whose name issued | From what date bearing interest | Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value | No. and date of order issued |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| <u>Mumbai (Fort) Circle</u> <u>Government of India Gold Bonds 1998</u> | | | | | |
| BY/SJG/000282 to BY/SJG/ 000289 (eight bonds) | 500 gms. of gold each | Radheshyam Mishrilal Saraf | 08.6.1993 | Govind Radheshyam Agrawal | Case No.2105, General Manager's Orders dated 17.12.2002 C.O.Diary No.406 dated 17.12.2002 |

List "A"

| | | | | | |
|---|--------------|---|-----------------------------|---|---|
| <u>Byculla (Mumbai Circle)</u> <u>9% R.B. 1987</u> | | | | | |
| GPA-BC-10861 | Rs. 10,000/- | Shantabai Desai (now Deceased) and Prabha Rao | 8.1.1991 | Shantabai Desai (now Deceased) and Prabha Rao | 06.25.62 21/6/2002 |
| <u>Nagpur Circle</u> <u>Gold Bond Scheme 1993</u> | | | | | |
| BY-STL 000189 | 591 Grams | Rajendra Kumar Oswal | Payable on maturity in 1998 | Rajendra Kumar Oswal | In terms of Dy. General Manager's Orders dated 23 rd November 2002 |

List "B"

| No. of Security | Value in Rs./Grams | In whose name issued | From what date bearing interest | Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value | No. and date of order issued |
|--|--------------------|--|---------------------------------|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| <p style="text-align: center;">Kolkata Circle 10% Relief Bonds 1995</p> | | | | | |
| CA-4597 | Rs.65,000/- | Geeta Chatterjee and Sambhu Nath Chatterjee | Cumulative | Geeta Chatterjee and Sambhu Nath Chatterjee | File No.I-2547 General Manager's Order dated 23.10.2002 (Dy.No.LCO-69/02-03 dated 23.10.2002) |
| <p style="text-align: center;">5 ¾% Loan 2001</p> | | | | | |
| CA-001085 | Rs.5,000/- | Reserve Bank of India | No interest paid since issue | Jayanta Chakraborty and Malay Kumar Chatterjee (Trustees, Containers and Closures Ltd. Workers' Provident Fund) | File No.I-2432 General Manager's Order dated 05.11.2002 (Dy.No.LCO-72/02-03 dated 05.11.2002) |
| CA-001094 | Rs.25,000/- | -do- | -do- | -do- | -do- |
| <p style="text-align: center;">Kolkata Circle 9% Relief Bonds 1999</p> | | | | | |
| CAC-001121 | Rs.8,00,000/- | Samar Gupta (Expired on 29.05.2001) and Jolly Gupta (E or S) | Cumulative | Jolly Gupta | File No.I-2546 General Manager's Order dated 25.11.2002 (Dy.No.LCO-78/02-03 dated 25.11.2002) |
| <p style="text-align: center;">Mumbai (Fort) Circle 6.5% Government of India Loan 2005</p> | | | | | |
| BY/006901 | Rs.6,000/- | Canara Bank | 01.04.1979 | The Shahabad Investments and Traders Ltd. Provident Fund Trust | Case No.20.04.2231 General Manager's Orders dated 09.12.2002 C.O.Diary No.391 dated 09.12.2002 |



(A.S. Mohinani)

p. Chief General Manager

PUNJAB & SIND BANK

HEAD OFFICE

New Delhi, the 1st March 2003

No. PSB/DAC/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Punjab & Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1981 namely:—

1. (i) These Regulations may be called the Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the "Official Gazette."

2. In the Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations 1981, in-regulation (20), for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely:—

"(4) Every Officer employee shall report to the competent authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in his name or in the name of member of his family if the value of such a property exceeds Rs. 25,000/-.

Provided that the previous sanction of the competent authority shall be obtained if any such transaction is:—

- (a) with a person having official dealings with the Officer employee; or
- (b) otherwise than through a regular or reputed dealer."

SAROOP SINGH, Deputy General Manager
(Personnel)

UCO BANK

PERSONNEL DEPARTMENT

HEAD OFFICE

12, OLD COURT HOUSE STREET

Kolkata-700001, the 30th December 2002

No. PEN:1:2002.—In exercise of the powers conferred by

Section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of UCO Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the UCO Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:—

1. (1) These regulations may be called UCO Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the UCO Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, for regulation 28, the following regulation shall be substituted, namely:—

28. Superannuation Pension

Superannuation Pension shall be granted to an employee who has retired on his attaining the age of superannuation specified in the Service Regulations or Settlements.

Provided that, with effect from 1st September, 2000 pension shall also be granted to an employee who opts to retire before attaining the age of superannuation, but after rendering service for a minimum period of 15 years in terms of any Scheme that may be framed for such purpose by the Board with the approval of the Government.

EXPLANATORY MEMORANDAM

1. Indian Banks' Association, after taking a no-objection from the Government of India, circulated a model Voluntary Retirement Scheme (VRS) to all the Public Sector Banks on 31.8.2000. The Scheme, inter alia, provided that employees who have rendered 15 years' service are eligible for the Scheme. According to the existing provisions in the pension regulations, it is only employees who opt for voluntary retirement after completing 20 years' of qualifying service and after giving notice of not less than 3 months in writing to the appointing authority, are eligible for pensionary benefits. The eligibility criteria and the benefits flowing out of the above provisions in the Pension Regulations are distinct and separate from that envisaged under VRS circulated on 31.08.2000. There are no provisions available in the Pension Regulations for extending pensionary benefits to a member employee who retires before attaining the age of superannuation under such specific schemes. It has been, therefore, decided to provide the benefit of pro-rata pensionary benefits to members of Pension Fund who opt for voluntary retirement under specified scheme(s).

2. It is, therefore, necessary that the amendment may be made effective from 1st September, 2000 so that all employees who are members of the Pension Fund and have taken voluntary retirement under the scheme after completion of 15 years of service can draw the benefit of pension.

3. It is certified that no employee/officer of the UCO Bank is likely to be affected adversely by the Notification being given retrospective effect.

Foot Note : The principal Regulations were notified in the Gazette of India (Extraordinary) on 29.09.1995 and subsequent amendment(s) to the above UCO Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, were published in the Gazette as per details given below:

| Sl. No. | Notification No. | Date |
|---------|------------------|------------|
| 1. | PEN/1/99 | 30.12.1999 |

K. MUKHERJEE
General Manager (Personnel)

HEADQUARTERS OFFICE

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
PANCHDEEP BHAVAN, KOTLA ROAD.

New Delhi-110002, the 2003

CORRIGENDUM

No. A-12(11)-1/99. EI(A).—In the notification No. A-12(11)-1/99-EI(A) dated Nil, December, 2001 regarding Recruitment Regulations for the post of Principal Private Secretary published in the Gazette of India (No. 1) Part-III, Section 4 dated 5.1.2002 the following shall be deleted.

ON PAGE 96

Under Col. No. 12

The word "or" appearing before the words "Deputation Including Short Term Contract" be treated as deleted.

Dr. ANAND DUA

New Delhi, the 7th February 2003

No. U-16/53/2001-Med. II (Kerala).—In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI

(General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (SZ), Bangalore for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

| Sl No. | Name of the Doctor | Period | Name of Centre |
|--------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 1. | Dr. L.J. Mulanthanam | 13.11.02 to 12.11.03 | Alleppey |
| 2. | Joseph Edwin | 29.12.02 to 28.12.03 | Kollam |
| 3. | Shantha Rajendran | 30.11.02 to 29.11.03 | Kannur |

Dr. (MRS.) S. SINGH
Med. Commissioner.

No. U-16/53/PTMR/T.N./Med. II.—In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year, or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (South Zone), Bangalore for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

| Name of the Doctor | Period | Name of Centre |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| Dr. T.R. Pandurangan | 1.10.02 to 30.9.03 | Trichy |

Dr. (MRS.) S. SINGH
Med. Commissioner.

**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
PANCHDEEP BHAWAN KOTLA ROAD NEW DELHI**

File No. R-12/16/9/02-Ins.II Policy

Dated: February, 2003

NOTIFICATION

It is notified for general information that the Employees' State Insurance Corporation at its meeting held on 18.12.2002 passed the following resolution:-

"In pursuance of the provisions under section 99 of the ESI Act, 1948, the ESI Corporation hereby resolves that the amount of periodical payment of Permanent Disablement and Dependents' benefits sanctioned under the provisions of the said act in the cases where the employment injuries resulting in disablement or death occurred on or before 31.12.2000 shall be enhanced to the extent indicated in the proposal, which is as under:-

| Sl.No | YEAR OF DISABILITY/DEATH | TOTAL INCREASES EFFECTED SO FAR | EXTENT OF INCREASE NOW PROPOSED |
|-------|--|---------------------------------|--|
| 1. | Cases where disablement or death occurred on or before 31.12.1952 | 2359% | 2689% of the basic amount(including previous increase) |
| 2. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1953 and upto 31.12.1953 | 2302% | 2625% of the basic amount(including previous increase) |
| 3. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1954 and upto 31.12.1954 | 2418% | 2757% of the basic amount(including previous increase) |
| 4. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1955 and upto 31.12.1955 | 2546% | 2901% of the basic amount(including previous increase) |
| 5. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1956 and upto 31.12.1956 | 2330% | 2657% of the basic amount(including previous increase) |
| 6. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1957 and upto 31.12.1957 | 2197% | 2505% of the basic amount(including previous increase) |

| | | | |
|-----|--|-------|--|
| 7. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1958 and upto 31.12.1958 | 2100% | 2396% of the basic amount(including previous increase) |
| 8. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1959 and upto 31.12.1959 | 2033% | 2319% of the basic amount(including previous increase) |
| 9. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1960 and upto 31.12.1960 | 1990% | 2271% of the basic amount(including previous increase) |
| 10. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1961 and upto 31.12.1961 | 1910% | 2180% of the basic amount(including previous increase) |
| 11. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1962 and upto 31.12.1962 | 1853% | 2116% of the basic amount(including previous increase) |
| 12. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1963 and upto 31.12.1963 | 1800% | 2055% of the basic amount(including previous increase) |
| 13. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1964 and upto 31.12.1964 | 1572% | 1797% of the basic amount(including previous increase) |
| 14. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1965 and upto 31.12.1965 | 1426% | 1631% of the basic amount(including previous increase) |
| 15. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1966 and upto 31.12.1966 | 1284% | 1470% of the basic amount(including previous increase) |
| 16. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1967 and upto 31.12.1967 | 1115% | 1278% of the basic amount(including previous increase) |
| 17. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1968 and upto 31.12.1968 | 1081% | 1240% of the basic amount(including previous increase) |
| 18. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1969 and upto 31.12.1969 | 1094% | 1255% of the basic amount(including previous increase) |

| | | | |
|-----|--|-------|--|
| 19. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1970 and upto 31.12.1970 | 1036% | 1189% of the basic amount(including previous increase) |
| 20. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1971 and upto 31.12.1971 | 1006% | 1154% of the basic amount(including previous increase) |
| 21. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1972 and upto 31.12.1972 | 935% | 1074% of the basic amount(including previous increase) |
| 22. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1973 and upto 31.12.1973 | 786% | 905% of the basic amount(including previous increase) |
| 23. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1974 and upto 31.12.1974 | 588% | 680% of the basic amount(including previous increase) |
| 24. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1975 and upto 31.12.1975 | 551% | 639% of the basic amount(including previous increase) |
| 25. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1976 and upto 31.12.1976 | 606% | 701% of the basic amount(including previous increase) |
| 26. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1977 and upto 31.12.1977 | 551% | 639% of the basic amount(including previous increase) |
| 27. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1978 and upto 31.12.1978 | 535% | 621% of the basic amount(including previous increase) |
| 28. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1979 and upto 31.12.1979 | 497% | 577% of the basic amount(including previous increase) |
| 29. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1980 and upto 31.12.1980 | 436% | 508% of the basic amount(including previous increase) |
| 30. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1981 and upto 31.12.1981 | 280% | 328% of the basic amount(including previous increase) |

| | | | |
|-----|--|------|---|
| 31. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1982 and upto 31.12.1982 | 255% | 299% of the basic amount(including previous increase) |
| 32. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1983 and upto 31.12.1983 | 220% | 259% of the basic amount(including previous increase) |
| 33. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1984 and upto 31.12.1984 | 197% | 234% of the basic amount(including previous increase) |
| 34. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1985 and upto 31.12.1985 | 183% | 217% of the basic amount(including previous increase) |
| 35. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1986 and upto 31.12.1986 | 162% | 194% of the basic amount(including previous increase) |
| 36. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1987 and upto 31.12.1987 | 143% | 172% of the basic amount(including previous increase) |
| 37. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1988 and upto 31.12.1988 | 127% | 154% of the basic amount(including previous increase) |
| 38. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1989 and upto 31.12.1989 | 111% | 136% of the basic amount(including previous increase) |
| 39. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1990 and upto 31.12.1990 | 96% | 119% of the basic amount(including previous increase) |
| 40. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1991 and upto 31.12.1991 | 75% | 95% of the basic amount(including previous increase) |
| 41. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1992 and upto 31.12.1992 | 59% | 77% of the basic amount(including previous increase) |
| 42. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1993 and upto 31.12.1993 | 51% | 68% of the basic amount(including previous increase) |

| | | | |
|-------|--|-----|--|
| 43. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1994 and upto 31.12.1994 | 39% | 55% of the basic amount(including previous increase) |
| 44. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1995 and upto 31.12.1995 | 29% | 43% of the basic amount(including previous increase) |
| 45. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1996 and upto 31.12.1996 | 20% | 33% of the basic amount(including previous increase) |
| 46. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1997 and upto 31.12.1997 | 14% | 26% of the basic amount(including previous increase) |
| 47. P | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1998 and upto 31.12.1998 | Nil | 14% of the basic amount |
| 48. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.1999 and upto 31.12.1999 | Nil | 10% of the basic amount |
| 49. | Cases where disablement or death occurred on or after 1.1.2000 and upto 31.12.2000 | Nil | 7% of the basic amount |

Resolved further that the enhanced rates of Permanent Disablement Benefit and Dependants' Benefit, as the case may be, shall be effective from 1st August, 2002.

Authenticated under section 7 of the Employees' State Insurance Act, 1948.


DIRECTOR GENERAL.

New Delhi, the 5th March 2003

No. N-15/13/6/5/2002-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March, 2003 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely :—

“Area comprising the Revenue Village of Kodumon in Adoor Taluk in Pathanamthitta District.”

R.C. SHARMA
Jt. Dir. (P&D)

No. N-15/13/6/10/2002-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March, 2003 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely :—

“Area comprising the Revenue Village of Paduvilayil and Mokeri in Tellichery Taluk in Kannur District, Thrikaripur in Hosdurg Taluk in Kasargod District, Mookkannur and Parakkadavu in Aluva Taluk in Ernakulam District.”

R.C. SHARMA
Jt. Dir. (P&D)

No. N-15/13/10/4/2002-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March, 2003 as the date from which the medical benefits as laid down in the said

Regulation 95-A and the Orissa Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1951 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Orissa namely :—

- (i) The areas comprising Revenue Villages of Madhipur, Rasalpur, Nuapadhi under P.S. Remuna in the district of Balasore.
- (ii) The areas comprising Revenue Villages of Kapursingh & Radhadamodarpur under P.S. Gurudijhatia in the district of Cuttack.
- (iii) The areas comprising Revenue Village Kukudakhandi under Berhampur Tahasil in the district of Ganjam.
- (iv) The areas comprising Revenue Villages of Koligunda, Kothapeta, Kadambariguda, Debadola and Komtalpeta under Rayagada Tahasil in the district of Raygada. and
- (v) The areas comprising of Revenue Villages of Bankia and Kapatmunda under Rourkela Tahasil and San-Naugaon and Chikatmati under Panposh Tahasil in the district of Sundergarh.

R.C. SHARMA
Jt. Dir. (P&D)

No. N-15/13/7/2/98-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March, 2003 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely :—

“Area comprising the Revenue Village of Machena Halli & Nidige, Hobli Nidige-I in Taluk and District Shimoga in the State of Karnataka.”

R.C. SHARMA
Jt. Dir. (P&D)

No. N-15/13/14/5/91-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March, 2003 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

AREAS COMPRISING THE REVENUE VILLAGES OF

1. Amaravathi
2. Pudur
3. K. Nerpugapatti
4. Kothari
5. Kalanivasal
6. Kovilur
7. Kottaiyur
8. Ariyakkudi
9. Karaikkudi and the areas within the Municipal Limit of Karaikkudi Municipality.
10. Sankarapuram, falling under Chekkalaikottai revenue group.
11. Patharakudi, falling under Managiri Chukkanendal revenue group.
12. Chettinad, falling under Kanadukathan revenue group of Karaikkudi Taluk.
13. Aravayal of Devakottai Taluk.
14. Siravayal.
15. Kunnakkudi (Kumdrakkudi).
16. Thalakkavur, falling under Illangudi revenue group of Thiruppathur Taluk in Sivagangai District.

R.C. SHARMA
Jt. Dir. (P&D)

No. N-15/13/14/2/2001-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March, 2003 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

“Areas comprising the Revenue Villages of Ganapathypalayam, Paruvai, Karadivavi of Palladam Taluk and V. Kallipalayam of Tiruppur Taluk in Coimbatore District.”

R.C. SHARMA
Jt. Dir. (P&D)

The 6th March 2003

No. N-15/13/8/5/2001-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March, 2003 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Madhya Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Chhattisgarh namely :—

“The Revenue Village Hathkōj including Heavy Industrial Area.”

R.C. SHARMA
Jt. Dir. (P&D)

No. N-15/13/8/1/2001-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March, 2003 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Madhya Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Chhattisgarh namely :—

“The Industrial Areas comprising the Revenue Village-Champa and Hathnewara in Tehsil Champa District Janzgir and the Revenue Village-Lachanpur and Birgahani in Tehsil and District Janzgir.”

R.C. SHARMA
Jt. Dir. (P&D)

The 7th March 2003

No. N-15/13/6/11/2002-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2003 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely :—

“Areas comprising the Revenue Villages of Edavanakkad in Cochin Taluk & Thuravoor in Aluva Taluk of Ernakulam District; Karinkunnam in Thodupuzha Taluk of Idukki District and Thirupuram & Koliayil in Neyyatinkara Taluk of Trivandrum District.”

R.C. SHARMA
Jt. Dir. (P&D)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**'PANCHDEEP' BHAWAN' KOTLA ROAD: NEW DELHI**

New Delhi, the 13th February 2003

NOTIFICATION

V-33(13)8/2000-E.IV.: In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of ESI (General) Regulations, 1950 the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board, for Karnataka Region, which shall consist of the following members namely :-

| | | | |
|----|--|--|--------------------------------|
| 1. | Minister for Labour Government of Karnataka Vidhana Soudha Bangalore-1 | Chairman | Regulation 10(1)(a) |
| 2. | Principal Secretary to the Govt. of Karnataka Labour Department M.S. Building Dr. Ambedkar Veedhi Bangalore-1 | Vice-Chairman | 10(1)(b) |
| 3. | Commissioner (Labour) Karnataka Karmika Bhavan Bannerughatta road Bangalore-29 | Member | 10(1)(c) |
| 4. | The Director ESIS (M) Services Rajajinagar, Bangalore-10 | Member | 10(1)(d)(i) |
| 5. | Deputy Medical Commissioner ESI Corporation (South Zone) No.10, Binny fields Binnypet, Serbi Circle Bangalore-23 | Member | 10(1)(d)(ii) |
| 6. | Shri M.P. Shyam Managing Director Mysore Feeds Ltd. Nayandahalli Mysore Road, Bangalore | Employers' Representative | 10(1)(e) |
| 7. | Shri Aiyappa President Employer's Association C/o International Institute 104, Hosur Road, Bangalore | Employers' Additional Representative | Proviso under Regulation-10 |
| 8. | Shri M.G. Prabhakar No.79, 14 th Cross II Phase, J.P. Nagar Bangalore-5600 078 | -do- | -do- |

| | | | |
|-----|---|--|--------------------------------|
| 9. | Shri N. Krishnachari President Karnataka Pradesh General Workers Congress Krishna Reddy Building Near Ramamurthy Nagar Police Station, Bangalore-16 | Employees' Representative | 10(1)(e) |
| 10. | Shri Ganapathi Hegde President Karnataka Workers Union CITU Office, 3 rd floor, V.G. Gopal Building, Lalbagh Fort Road Bangalore-4 | Employees' Additional Representative | Proviso under Regulation-10 |
| 11. | Shri M.K. Sudarshan General Secretary Bharat Heavy Electricals Employees' Trade Union Congress No.3, "Shree Nivasa" 4 th Main Road, Srikanteshwara Nagar Near Mahalakshmi Lay-out Swimming Pool Bangalore-96 | Employees' Additional Representative | Proviso under Regulation-10 |
| 12. | Shri Allampalli Venkataram President Bharatiya Mazdoor Sangha Subedar Chattram Road Bangalore-9 | -do- | -do- |
| 13. | Shri B.C. Prabhakar Secretary Karnataka State Employer's Association No.135, Surveyer Street Basavanagudi Bangalore | Ex-officio Member (Member, ESIC residing in the State) | 10(1)(f) |
| 14. | Dr. K.C. Raju Reddy Consulting Physician Raju Nursing Home Lingarajapuram Bangalore 560 048 | Member of the Medical Profession | 10(2) |
| 15. | The Regional Director ESI Corporation Regional Office KARNATAKA | Member-Secretary | 10(3) |

(Dr. AJAY DUA)
DIRECTOR GENERAL

Annual Administrative Report
Of
Dargah Khwaja Saheb, (R.A.), Ajmer.
(2001-2002)

1. It is my proud privilege to present my 2nd report on the Administration of Dargah Khwaja Saheb for the year 2001-2002.
2. In the beginning of the year under report the Dargah Committee consisted of the following :-
 - i. Janab Abdul Mabood Khan Saheb, Bhadoi
 - ii. Janab Moulana Mohd. Yaseen Akhtar Misbahi Saheb, Delhi
 - iii. Janab M.S.Farooqi Saheb, Mumbai.
 - iv. Prof. Akhtar Wasey Saheb, Delhi.
 - v. Janab Ismail Issuf Baig Saheb, Goa.
 - vi. Moulana Jameel Ahmed Ilyasi Saheb, Delhi.
 - vii. Janab Raees Miyan Chishty Saheb, Fatehpur-Sikri
 - viii. Mrs. Sajida Begum, Maler Kotla.
- 2.1 Janab Haji Inayat Hussain Qureshi Saheb of Indore was appointed as Member Dargah Committee vide Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment notification no.S.O.1042 (E) dated.16th October, 2001.
3. Janab Abdul Mabood Khan and Janab Ismail Issuf Baig were elected President and Vice-President respectively for the 2001-2002.
4. Looking to the extraordinary services of Janab Shakil Ahmed, R.C.S. Nazim Dargah Khwaja Saheb, Ajmer, Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India, New Delhi extended term of Shakil Ahmed Nazim Dargah Khwaja Saheb, Ajmer for one more year i.e. upto 27th July 2002 vide notification no S.O.nil (E) dated.03rd August, 2001.
5. **Dargah Finances:-** Following is the statement of Income, Expenditure and savings for the year under report. Figures of the last year are also noted below to give a comparative glimpse.

| | | 2000-2001 | 2001-2002 |
|-----|---|-----------------|-----------------|
| 5.1 | Opening balance as in the beginning of the Year | 874761 | 390723 |
| 5.2 | Income during the year (+) | 16283827 | 16662663 |
| | Total | 17158588 | 17053386 |
| 5.3 | Expenditure during year (-) | 16967473 | 16858660 |
| 5.4 | Closing balance in the end of year | 191115 | 194726 |
| 5.5 | Reserve fund | 5002000 | 5548468 |

| 5.6 Following expenditures particularly on Charitable and welfare activities increased in comparison to last year. | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| | | (2000-2001 Rs in lacs) | (2001-2002 Rs in lacs) |
| 1. | Langar & Ramzan Langar | 387487 | 370011 |
| 2. | Free Medicine | 130794 | 125754 |
| 3. | Tajheej o Takfeen (Burial of Un-claimed Dead Bodies) | 80565 | 78274 |
| 4. | Medical Assistance | 459582 | 338892 |
| 5. | Stipend to widows | 396930 | 433659 |
| 6. | Help to needy | 85682 | 95820 |
| 7. | Educational Assistance | 340872 | 476456 |
| 8. | Darul Uloom | 218830 | 232377 |
| 9. | Khwaja Model School | 785845 | 631643 |
| 10. | Computer Centre | 184432 | 406056 |
| 11. | School in Rural area | 165446 | 254686 |
| 12. | Zaqat expenditure | 35151 | 31510 |
| 13. | Pay to Staff | 5430314 | 5831088 |

6. **Daily Langar & Ramzan Langar :-** Langar (cooked food) was distributed twice daily to all without discrimination of caste & creed. A sum of Rs. 3.87 lacs were spent on this account. 142 Qt. Wheat and 84 Qt. Barley was purchased for langar.
- 6.1 400 poors and needy rozedars have been given two times meals daily during the Holy month of Ramzan. Besides this Iftari including fruits, Khajoor (dates) etc was also arranged for Central Jail prisoners who observed Roza. A sum of Rs.0.81 lacs was spent for this purpose.
7. **Medical Facilities :-** Unani and Homeopathic dispensaries are being managed by the Dargah Committee. A sum of Rs.3.22 lacs are being spent on the purchase of medicine during the year under report. About 53000 patients were treated.
8. **Educational Programme :-**
- 8.1 **Darul Uloom Moinia Usmania :-** A sum of Rs. 2.32 lacs were spent on Darul Uloom. 63 students appeared in the examinations and 61 were declared passed on 10th Shahban 1422 Hijri. At present 54 students from out side Rajsthan and 28 local student are studying as detailed under: Total students are 82.

| S.No. | Class | No. of students |
|-------|--------------|-----------------|
| 1. | Tehtani | 41 |
| 2. | Hifz | 25 |
| 3. | Fauqani | 16 |
| | Total | 82 |

- 8.2.1 **Khwaja Model School:-** A sum of Rs.6.32 lacs were spent on Khwaja Model School. There are 182 students in school.
- 8.2.2 A master plan for the Construction of building of Khwaja Model School is submitted to Municipal Council. It was approved by the Municipal Council. Inshah-Allah very soon work will be started. We are trying to get more finances from MP LAD funds.
- 8.3 **Gharib Nawaz Computer Centre:-** A computer training Centre is run by Dargah Committee at Civil Lines Ajmer with the association of National Council for Promotion of Urdu Language, New-Delhi. At present 11 computer sets are in the centre. 54 students are learning at the Centre, where two instructors are deputed by Indian Education Company from New-Delhi. A sum of Rs 4.41 lacs were spent for the purpose. 65 students appeared in the examination and 57 have been declared successful.
- 8.4 **Schools in Rural Area :-** 6 Schools are being run in rural areas of Beawar by the assistance of Dargah Committee. Total numbers of students studying are 369. A sum of Rs. 2.55 lacs were spent on the schools.
9. **Opening of Chilla of Baba Farid Ganj-e-Sakar :-** Chilla of Baba Farid Ganj-e-Sakar was opened for 72 hrs. on 19th March, 2001 i.e.4th Muharam 1423 Hijri. About twenty thousand pilgrims visited for ziarat.
10. **Rituals of Dargah Sharif:-** The Mehfil of Annual Urs of Khwaja saheb, Khwaja Usman harooni (R.A.) and other mehfiles of Jumerat (Thursday) Chati Sharif Chaoudhveen Sharif, were performed properly. The Airas of Khulfa-e-Rasheedin, Muharam, Eid-Meeladunnabi etc were observed solemnly. Arrangements for prayers of Eiden were also made at Eidgah and Dargah Sharif.
11. **Annual Urs:-** Annual urs of Hazrat Khwaja Moinuddin Hasan Chishty (RA) was celebrated from Ist Rajab 1422 A.H. corresponding to 19.09.2001. Qul was held on 27th September,2001 i.e. 9th Rajab 1422 A.H. On 9th Rajab whole Dargah Sharif was washed and cleaned, rose water was sprinkled by the Zaireen. About 7 lacs pilgrims gathered during Urs.

Elaborate arrangements were made by the Distt. Administration and the Dargah management to provide facilities to the pilgrims. The telecommunication deptt., Rajasthan State Roadways Transport Corporation, Post offices, Railways opened their special counters for the needs of pilgrims. Identity cards were given as per last year, to the zaireen who stayed at Vishram sthali.

12. **Audit of Accounts of Dargah Khwaja Saheb:-** Audit of accounts of Dargah Khwaja Saheb for the year 2000-2001 has been carried out by our CA. We have requested AG Office for Audit of Accounts for the year 2000-2001. Report of Audit of Accounts of Dargah Khwaja Saheb Ajmer will be submitted after inspection of accounts by AG team in the next meeting.
13. **Increase in Rental / Licensees Income :-** An increase of Rs. 3.11 per annum has been recorded in rental & licensee income of Dargah Sharif during the year under report.
14. **A.C.Room:-** Two more rooms i.e. room no.122 & 118 has been changed to A.C. rooms. Air conditioners were donated by Janab Feroz Khan Saheb, New Delhi and Janab Arif Mohd Khan Saheb, M.P.
15. **Golden work:-** Golden work was carried out in Begmi Dalan by Anjuman Moinia Fakhria Chishtiya, Ajmer.
16. **Supply of Rose Flower, Candles and Sandal :-** As per past practice & tradition following expenditures were incurred for presenting flowers and sandal paste on Mazar-E-Aqadas and candles for lighting the tomb.

| S.No. | Item | Amount spent (lacs) |
|-------|----------------------------|---------------------|
| 1. | Rose Flowers (Gul-e-Surkh) | 1.08 |
| 2. | Sandal | 0.51 |
| 3. | Candles | 0.65 |

17. **Repairs & Maintenance:-** Following work has been carried out during the year under report.

| S.No. | Item | Amount spent in (Lacs) |
|-------|----------------------------------|------------------------|
| 1. | Properties of DKS in city | 0.87 |
| 2. | Maintenance of Guest House | 1.23 |
| 3. | Maintenance of Dargah Apartments | 0.06 |
| 4. | Maintenance of Dargah Sharif | 3.03 |

18. **Welfare Activities and Financial Assistance :-** The following major expenses on welfare and social activities have been incurred during the year under report:-
- 18.1 **Stipend to Widows:-** A sum of Rs.433700/- was distributed to widows, needy persons during the year under report.
- 18.2 **Scholarship to poor students (Educational Aid):-** A sum of Rs.72000/- has been spent for the purpose.
- 18.3 **Tajjeej-O-Takfeen:-** A sum of Rs.78300/- has been spent on the burial of unclaimed dead bodies.
- 18.4 **Aid to Poor & Needy:-** Rs.95800/- thousand has been spent in giving financial help to the above category of needy persons.

- 18.5 **Aid to Mohd.Ali Memorial Sr. Secondary School, Beawar :-** Rs.18,000/- has been given to the said school.
- 18.6 **Aid to Service Guidance Bureau, Jaipur:-** Rs.10,000/- given to Service Guidance Bureau, Jaipur.
- 18.7 **Aid to Dargah Sharif Sarwar:-** Rs.6,000/- per annum has been given to the Dargah Sharif Sarwar.
19. **Meetings of Sub-Committee:-** 4 Meetings of Sub-Committees have been held during the year under report.
20. **Meetings of Dargah Committee:** The Dargah Committee held 5 meetings in connection with the affairs of Dargah Sharif.
21. **Visit of V.V.I.P.s/V.I.P.s:** The visit of the following dignitaries amongst others deserves to be recorded.
1. Janab Syed Shah Nawaz Hussain, Central Minister, Govt. of India.
 2. Mrs. Girija Vyas, Chairperson Rajasthan Congress and M.P. Udaipur. (Rajasthan)
 3. Shri DigVijay Singh, Chief Minister, Govt. of M.P.
 4. Shri Altaf Hussain Saheb, Solicitor General, India.
 5. Shri Hukam Dev Narayan, Central Minister for Jhazrani, Govt. of India, new-Delhi.
 6. Shri Pramod Tiwari, Leader Opposition Party U.P.Govt.
 7. Shri L.K.Verma, Air Marshal, Air Force, India.
 8. Shri Dr. Farooque Abdullah, Chief Minister, Kashmir.
 9. Shri Umar Abdullah, Minister of State for Foreign, Govt. of India.
 10. Dr. APJ Abul Kalam, Scientist, Govt. of India.
 11. Shri Chandrakant Kharey, M.P. Aurangabad.
 12. Shri Iqbal Ahmed Saradgai, M.P. Gulberga.
 13. Shri G.M. Banatwala, M.P. Mumbai.
 14. Shri S.I.Sherwani, M.P. Allahabad.
 15. Shri M Qader, M.P. New Delhi
 16. Shri Ramnand Singh, M.P. Satna.
 17. Shri Vishnu Dutt Sharma, M.P. Jammu
 18. Justice Shamim Ahmed, Chairman Minority Commission, Govt. of India.
 19. Mrs. Benazir Bhutto, Former Prime Minister, Republic of Pakistan.
 20. Shri Satya Narayan Jatiya, Minister for Social Justice & Empowerment, Govt. of India, New Delhi.
22. At last I thank the President, Vice-President and Members of the Committee for their valuable guidance extended to me for solving Administrative and other problems related to Dargah Sharif.
Insha Allah, I will try my best to improve the Dargah Finances, safeguards Endowment and provide facilities for zaireen with the Guidance of the Dargah Committee.


Shakil Ahmed,
 R.C.S.

Nazim, Dargah Khwaja Saheb, Ajmer.

**AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF DARGAH KHWAJA
SAHEB, AJMER FOR THE YEAR 2000-01**

1. Introductory

1.1 For the proper administration of the Dargah and the Endowment of the Khwaja Moinuddin Chishti, popularly known as 'Dargah Khwaja Saheb' Ajmer (Dargah), the Dargah Khwaja Saheb Act was passed by the Parliament in 1955. As per provisions of the Act, the Dargah Endowment includes :-

- (a) The Dargah Khwaja Saheb, Ajmer,
- (b) All buildings and movable property within the boundries of Dargah Sharif,
- (c) Dargah Jagir including all land, houses, shops and all immovable property wherever situated belonging to the Dargah Sharif,
- (d) All other property and all income derived from any source whatsoever dedicated to the Dargah or placed for any religious, pious or charitable purposes under the Dargah administration including the Jagirdari, villages of Hokran and Kishanpur in Ajmer and
- (e) All such 'Nazars' or offerings as are received on behalf of the Dargah by the Nazim or any person authorized by him.

1.2 The administration, control and management of the Dargah Endowment is vested in the Dargah Committee, Ajmer which exercises its functions through the 'Nazim' appointed by the Central Government in consultation with the Committee. The Nazim is the Chief Executive Officer of the Dargah administration who also acts as Secretary of the Committee.

1.3 Section 19(2) of the Act *ibid* envisages that the Committee shall every year prepare a report on the administration of the Dargah which together with the accounts of the Dargah and the report of the auditor thereon, shall be published in the official Gazette. The annual administrative reports for the year 1999-2000 and 2000-2001 alongwith Audit Report for the year 1998-99 and 1999-2000 has been published in the official Gazette of the Government of India dated 19.01.2002.

1.4 Under Section 19(1) of the Act *ibid*, the accounts of the Dargah are required to be audited every year by such persons and in such manner as the Central Government may direct. The Central Government has entrusted the audit to the Comptroller and Auditor General of India under the provisions of Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 for a period of 5 years from 1998-99 to 2002-03. A summary of receipts and payments of the Dargah for the year 2000-01 is given below :-

Statement of Receipts and Payments

(Rs. In lakh)

| Particular of Receipt | Amount | Particular of Payment | Amount |
|---|---------------|------------------------------------|---------------|
| Opening Balance | 53.77 | Salary & Allowances | 56.58 |
| Income from Jagir | 00.74 | Office Expenses | 10.52 |
| Income from Property (Rental Income) | 20.12 | Dargah Sharif Expenses | 33.43 |
| Income from Nazar | 56.07 | Inside Gumbad Sharif Exp. | 3.27 |
| Income from Grant | 00.08 | Dawakhana Expenses | 1.31 |
| Income from Interest on FD & SB Account | 4.19 | Darululoom Expenses | 2.19 |
| Recovery of loan | 2.97 | Aid Expenses | 10.55 |
| Income from Guest House | 65.86 | Guest House Expenses | 12.32 |
| Income from Khwaja Model School | 4.23 | Dargah Apartment Expenses | 2.60 |
| Income from Garib Nawaj Computer Centre | 4.75 | Repairs & Maintenance | 11.09 |
| Donation for construction | 2.15 | Khwaja Model School Expenses | 7.86 |
| Miscellaneous Income | 3.06 | Primary School in Village Expenses | 1.65 |
| | | Computer Centre Expenses | 1.84 |
| | | Construction Expenses | 3.34 |
| | | Repayment of Loan | 1.63 |
| | | Miscellaneous Expenses | 3.88 |
| | | Closing Balance | 53.93 |
| Total | 217.99 | Total | 217.99 |

Comments on Accounts

2 Balance Sheet

2.1 *Understatement of Gold in Stock Rs. 0.62 lakh*

599.790 gram gold lying in stock was valued at Rs. 2.03 lakh in the Balance Sheet on the basis of prevailing market price for the year in which it was received whereas it should have been valued on the basis of rate of Rs. 441.37 per gram prevailing during the year 2000-01 i.e. at Rs. 2.65 lakh. Thus the assets as well as liabilities were understated by Rs. 0.62 lakh.

The Dargah Committee stated (September 2002) that the quantity of gold received during a particular year was being valued on the basis of rates prevailing in that year. The reply is not tenable as in absence of valuation of Gold in stock on the current market price, the Balance Sheet does not exhibit its correct value.

3. General

3.1 *Loss of revenue due to unauthorized receipt of 'Nazar' and 'Offerings' by Khadims*

Para 16(c) of Bye Laws of 1958 envisage that Khadims will neither solicit nor receive any Nazar or offerings from any person on behalf of the Dargah or in the name of Khwaja Saheb.

In spite of this, the Dargah administration was unable to check the activities of collection of 'Nazar' or 'Offering' by about 2100 Khadims working in the Dargah. Moreover, the Association of Khadims (Anjuman) awarded the contract of 'deg offering' at Rs. One Crore which was 10 percent of Anjumans share of the total collection of the 'deg'. This was also mentioned in the report presented to the Joint Parliamentary Committee by the Nazim. Besides this only one percent of total 'offering' received by way of Nazar Boxes goes to the Dargah Committee and the rest 99 percent goes to the Khadims. The matter regarding deg droppings is sub-judice between Dargah Committee and Anjumans since 1970.

No comments were offered (September 2002) by the Dargah Committee.

3.2 *Unauthorised occupation of Properties of Dargah Khwaja Saheb*

Jagir of 17 villages granted to Dargah in the year 1637 AD was acquired by the Government of Rajasthan in the year 1956. After 1956, the properties of Dargah were neither evaluated nor physically verified with reference to the revenue records. The register of properties maintained in Dargah did not contain details of properties which should be in possession of Dargah in Ajmer & outside Ajmer. As a result, properties as detailed below were unauthorisedly occupied by the Urban Improvement Trust (UIT)/Nagar Parishad etc.

| Sl. No. | Place of Property | Total Area | | Occupied Area | | Details of Occupants |
|---------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|
| | | Bigha | Biswa | Bigha | Biswa | |
| 1 | Loha Khan, New Basti | 63 | 15 | 54 | 7 | UIT |
| 2 | Jawahar Nagar (Shastri Nagar) | 18 | 10 | 18 | 10 | UIT |
| 3 | Loha Khan | 1 | 5 | 1 | 5 | Nagar Parishad |
| | Total | 83 | 10 | 74 | 02 | |

The Dargah Committee stated (September 2002) that the action to settle the cases was being taken.

3.3 *Non-submission of returns of foreign contribution*


Government of India, Ministry of Home Affairs (Ministry) circular dated 31 July 1987 envisages that where the foreign contribution relates to articles, the organisation was required to submit a return in Form FC-6 to the Ministry. Besides the Ministry had instructed vide its circular dated 25th September 1987 that returns were to be furnished even when the particulars were 'Nil'.

During audit it was noticed that return in Form FC-6 was not being submitted to the Ministry.

Further Demand Drafts, Cheques, Postal Orders worth Rs. 0.65 lakh received from various foreign countries during 2000-01 were not entered in the Cash Book of foreign contribution for the year 2000-01 & consequently not shown in the annual return submitted to the Ministry.

The Dargah Committee stated (September 2002) that Form FC-6 was required to be sent to the ministry in the year in which any article was received from a foreign country and not in the year in which the particulars were 'nil'. The reply is not tenable because as per instructions of the ministry returns were to be furnished even when the particulars were 'nil'. The Committee further intimated that instructions to enter the amount received in Indian Rupee from foreign countries in the cash book of foreign contribution, have been issued.

Place : Jaipur
Date: 3rd October, 2002



(Rakesh Jain)
Accountant General (Audit-I)
Rajasthan, Jaipur

Audit Certificate

I have examined the Receipt and Payment Account, Income and Expenditure Account for the year ending 31st March 2001 and the Balance Sheet as on 31st March 2001 of the Dargah Khwaja Saheb, Ajmer. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these Accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Dargah Khwaja Saheb, Ajmer according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the Organisation.

Place: Jaipur

Date: 3rd October, 2002


(Rakesh Jain)
Accountant General (Audit-I)
Rajasthan